

# बुशफायर से बचने की आपकी योजना मेरे पास अभी कोई योजना नहीं है...

अपनी, अपने घर और परिवार की तैयारी करना आपकी जिम्मेदारी है। योजना होने से बुशफायर से बचने की आपकी संभावना बेहतर होती है।

अधिकांश लोगों के पास बुशफायर से बचने की योजना होती है। यदि आपके पास अभी कोई योजना नहीं है, तो इसकी शुरूआत करना आसान है। बुशफायर से पहले जो महत्वपूर्ण काम आप कर सकते/सकती हैं उनमें से एक यह फैसला लेना है कि आग का खतरा होने पर आप क्या करेंगे/करेंगी।

## '5 मिनट फायर चैट' पूरा करें

आज ही इसे अपने घर-परिवार के साथ पूरा करें। बुशफायर के दौरान आपका बचना इसपर निर्भर करता है।

### हम कब निकलेंगे?

क्या आपके घर-परिवार के कोई बच्चे, डिपेंडेंट (आश्रित व्यक्ति), वृद्ध व्यक्ति या बीमार सदस्य समय से पहले निकल जाएँगे?

हाँ नहीं अनिश्चित

### क्या हम अपना घर और अपनी प्रापर्टी तैयार करने में सक्षम हैं?

एक अच्छे से तैयार घर और प्रापर्टी बुशफायर के दौरान बचने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए अहम हैं।

हाँ नहीं अनिश्चित

### क्या हम बुशफायर की स्थिति का सामना कर पाएँगे?

क्या आपके घर-परिवार के सभी सदस्य किसी एक समय में घंटों या यहाँ तक कि दिनों तक आपके घर की सुरक्षा करने के लिए मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से तैयार हैं?

वातावरण गर्म, धुँएँ वाला और अस्तव्यस्त होगा - और हो सकता है कि आपको फायरफाइटरों से सहायता न मिले।

हाँ नहीं अनिश्चित

### क्या हमारे पास साधन होंगे?

क्या आप आवश्यक फायरफाइटिंग सामग्री प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं - इसमें सुरक्षात्मक वस्त्रों के साथ एमर्जेंसी किट शामिल है?

हाँ नहीं अनिश्चित



यदि आपने एक या एक से अधिक सवालों का जवाब 'नहीं' या 'अनिश्चित' दिया है, तो यह जरूरी है कि आप **समय से पहले निकल जाएँ**। यह आपका सबसे सुरक्षित विकल्प है।

यदि आपने सभी सवालों का जवाब 'हाँ' में दिया है, तो आप केवल तभी **रूके रहने का निर्णय ले सकते/सकती हैं**, यदि आपने अच्छे से तैयारी की है।

बुशफायर के लिए हमेशा तैयार रहें तैयारी करें। कदम उठाएँ। जान-माल बचाएँ।



NSW RURAL FIRE SERVICE



Hindi | हिन्दी